



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ 1931 (श0)
(सं0 पटना 224) पटना, शुक्रवार, 29 मई 2009

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचनाएं
26 मई 2009

सं0 4(न) गठ-15/2009-1807/न0वि0एवंआ0वि0-बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नांकित अनुसूची 'क' के अंतर्गत पड़ने वाले पूर्णिया जिला की अनुसूची में यथा वर्णित चौहद्दी के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-636 दिनांक-25.02.09 के द्वारा पूर्व प्रकाशित है, नगर निगम का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों पर लागू करते हैं:-

अनुसूची 'क'

1. (क) ग्राम पंचायतों, ग्रामों के नाम एवं थाना नं0

<u>ग्राम पंचायत/नगर निकाय</u>	<u>ग्राम/वार्ड का नाम</u>	<u>थाना सं0</u>
(i) नगर परिषद, पूर्णिया	वार्ड नं0-1	123 / 1
	वार्ड नं0-2	123 / 1
	वार्ड नं0-3	123 / 1
	वार्ड नं0-4	123 / 1
	वार्ड नं0-5	123 / 1
	वार्ड नं0-6	110
	वार्ड नं0-7	123 / 1
	वार्ड नं0-8	123 / 1
	वार्ड नं0-9	123 / 1
	वार्ड नं0-10	123 / 1
	वार्ड नं0-11	123 / 1
	वार्ड नं0-12	108
	वार्ड नं0-13	123 / 2
	वार्ड नं0-14	123 / 2
	वार्ड नं0-15	123 / 2
	वार्ड नं0-16	123 / 2

	वार्ड नं०-17	123 / 2
	वार्ड नं०-18	123 / 2
	वार्ड नं०-19	108
	वार्ड नं०-20	108
	वार्ड नं०-21	238
	वार्ड नं०-22	239
	वार्ड नं०-23	239
	वार्ड नं०-24	239
	वार्ड नं०-25	239
	वार्ड नं०-26	239
	वार्ड नं०-27	100 / 1
	वार्ड नं०-28	100 / 1
(ii)	हॉसदा	
	हॉसदा मुंशीबाड़ी टोला	240
	हॉसदा कोठी टोला	240
	हॉसदा तरबन्ना	240
	हॉसदा बंगाली टोला	240
	दमका रानीबाड़ी टोला	240
	दमका हाजी टोला	240
	दमका यादव टोला	240
	दमका नया टोला	240
	लखनझरी मदरसा टोला	97
	लखनझरी मस्जिद टोला	97
	लखनझरी संठीबारी टोला	97
	लखनझरी दक्षिण टोला	97
(iii)	मरंगा पूर्व	
	मरंगा सहदेव दास टोला	110
	अमरीक सिंह टोला बायपास	110
	मिल्की मरंगा पूर्व	110
	मिल्की शरणार्थी टोला मरंगा पूर्वी	110
	मिल्की बधिया टोला एवं हरिजन टोला	110
	उफरैल टोला	110
	रामनगर टोला	110
	चित्रगुप्त नगर	110
	उफरैल ततमा टोला	110
	ततमा टोला उफरैल	110
	ततमा टोला सम्राट चौक	110
	ततमा महावीर दास टोला	110
	ततमा रॉव उरॉव टोला	110
	शिवनगर उफरैल	110
(iv)	मरंगा पश्चिम	
	मरंगा वली टोला	110
	मरंगा बर्मा कॉलोनी	110
	मरंगा गोट यादव टोला एवं साह टोला	110
	मरंगा गोट बस्ती	110
	मरंगा गोट गंगा बाबु टोला	110
	मरंगा बिन्द टोला	110
	मरंगा चौहान टोला	110
	मरंगा	110
	मरंगा गुलाबबाग बाड़ी	110
	मरंगा गुलाबबाग बाड़ी	110
	मरंगा अनीर ऋषि टोला	110
	मरंगा डोमन ऋषि टोला	110
	मरंगा शरणार्थी टोला	110
	मरंगा शरणार्थी टोला	110

(v)	अब्दुलानगर	कप्तान पाड़ा	100
		काली घाट	100
		कालीघाट	100
		कालीघाट	100
		कालीघाट	100
		बसगामा बंगाली टोला	100
		कुशवाहा टोला	100
		कालीगंज	100
		निलगंज	100
		पोखरिया अंसारी टोला	100
		बेगमबाद बेलाबाड़ी	100
		सिंधिया टोला	100
		बसन्तपुर मुसलमान टोला	100
		बसन्तपुर उरौव टोला	100
		हाजीरगंज	100
		चन्दन नगर चौक	100
		चन्दन नगर चौक	100
(vi)	बेलौरी	शिव मंदिर टोला	107
		बेलौरी श्रीराम टोला	107
		पुराना बेलौरी काली स्थान	107
		बेलौरी ठाकुरबाड़ी टोला	107
		बेलौरी मिस्त्री टोला संत कौवरिया टोला	108
		बेलौरी संत कौवरिया एवं बाध टोला	108
		बेलौरी अनुपनगर हरिजन टोला	107
		बेलौरी अनुपनगर टोला	107
		बेलौरी आदिवासी भादो टोला	107
		बेलौरी श्रीकृष्ण टोला	107
		बेलौरी नया टोला	107
		बेलौरी गोपालगंज टोला	106
		बेलौरी सतडोम टोला	107
		बेलौरी आगाघाट लोहा हाट	107
		बेलौरी रामघाट टोला	107
(ख)	चौहद्दी	उत्तर	कसबा प्रखण्ड सीमा एवं के0 नगर प्रखण्ड सीमा
		दक्षिण	पंचायत हरदा, पंचायत लालगंज, पंचायत रानीपतरा का सीमा
		पूरब	पंचायत बरसौनी
		पश्चिम	मौजा बनभाग एवं के0 नगर प्रखण्ड सीमा

इस क्षेत्र को पूर्णिया नगर निगम, पूर्णिया कहा जायेगा।
 2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 प्रेमचन्द चौधरी,
 संयुक्त सचिव।

26 मई 2009

सं0 4(न) गठ-15/2009-1808-अधिसूचना संख्या 1807 दिनांक 26.05.09 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 प्रेमचन्द चौधरी,
 संयुक्त सचिव।

The 26th May 2009

No. 4 (N) Gath. 15/2009-1807/UD&HD—In exercise of powers conferred by section 6 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007) the Governor of Bihar is pleased to constitute the following Municipal Corporation, draft of which is previously published through the department's notification no. 636 dated 25.02.09 for the purpose of the said Act in the areas lying within the places noted below in schedule 'A' in the Districts of Purnea and bounded as follows and to apply to the said areas the relevant provisions of the Act:-

Schedule- A

1. (a) Name of Village Panchayats, Villages and Thana Nos

Name of Village Panchayats/ULB,	Villages/Ward	Thana Nos
(i) Nagar Parishad, Purnea	Ward No-1	123/1
	Ward No-2	123/1
	Ward No-3	123/1
	Ward No-4	123/1
	Ward No-5	123/1
	Ward No-6	110
	Ward No-7	123/1
	Ward No-8	123/1
	Ward No-9	123/1
	Ward No-10	123/1
	Ward No-11	123/1
	Ward No-12	108
	Ward No-13	123/2
	Ward No-14	123/2
	Ward No-15	123/2
	Ward No-16	123/2
	Ward No-17	123/2
	Ward No-18	123/2
	Ward No-19	108
	Ward No-20	108
	Ward No-21	238
	Ward No-22	239
	Ward No-23	239
	Ward No-24	239
	Ward No-25	239
	Ward No-26	239
	Ward No-27	100/1
	Ward No-28	100/1
(ii) Hansda	Hansda Munshibadi Tola	240
	Hansda Kothi Tola	240
	Hansda Tarbanna	240
	Hansda Bengali Tola	240
	Damka Ranibadi Tola	240
	Damka Haji Tola	240
	Damka Yadav Tola	240
	Damka Naya Tola	240
	Lakhanjhari Madarasa Tola	97

	Lakhanjhari Masjid Tola	97
	Lakhanjhari Santhibari Tola	97
	Lakhanjhari Dakshink Tola	97
(iii) Maranga East	Maranga Sahdev Das Tola	110
	Amarik Singh Tola Bypass	110
	Milki Maranga East	110
	Milki Sharnarhi Tola Maranga East	110
	Milki Badhiya Tola and Harijan Tola	110
	Ufrail Tola	110
	Ramnagar Tola	110
	Chitragupta Nagar	110
	Ufrail Tatama Tola	110
	Tatama Tola Ufrail	110
	Tatama Tola Samrata Chauk	110
	Tatama Mahabir Das Tola	110
	Tatama Raw Uraon Tola	110
	Shivnagar Ufrail	110
(iv) Maranga West	Maranga wali Tola	110
	Maranga Verma Colony	110
	Maranga Got Yadav Tola and Sah Tola	110
	Maranga Got Basti	110
	Maranga Got Ganga Babu Tola	110
	Maranga Bind Tola	110
	Maranga Chauhan Tola	110
	Maranga	110
	Marnaga Gulab Bag Bari	110
	Marnaga Gulab Bag Bari	110
	Marnaga Anir Rishi Tola	110
	Marnaga Doman Rishi Tola	110
	Maranga Refugee Tola	110
	Maranga Refugee Tola	110
(v) Abdullah Nagar	Kaptan Para	100/1
	KaliGhat	100/1
	KaliGhat	100/1
	KaliGhat	100/1
	KaliGhat	100/1
	Basagama Bangali Tola	100/1
	Kushwaha Tola	100/1
	Kaliganj	100/1
	Nilganj	100/1
	Pokhariya Anshari Tola	100/1
	Begumbad Belabari	100/1
	Singhiya Tola	100/1
	Basantpur Musalman Tola	100/1
	Basantpur Uraon Tola	100/1
	Hajirganj	100/1
	Chandan Nagar Chauk	100/1
	Chandan Nagar Chauk	100/1

(vi) Belaury	Shiv Mandir Tola	107
	Belaury Sriram Tola	107
	Purana Belaury Kali Ashathan	107
	Belaury Thakurbari Tola	107
	Belaury Mistri Tola Sant	108
	Kawanriya Tola	
	Belaury Sant Kawariya and Badh Tola	108
	Belaury Anupamnagar Harijan Tola	107
	Belaury Anupamnagar Tola	107
	Belaury Adivashi BhadoTola	107
	Belaury Sri Krishna Tola	107
	Belaury Naya Toal	107
	Belaury Gopalganj Tola	106
	Belaury Satdoma Tola	107
	Belaury Agaghat Loha Hat	107
	Belaury Ramghat Tola	107

(b) Boundary:-

North-	Kasawa Prakhanda and K Nagar Prakhanda Border
South-	Panchayat Harda, Panchayat Lalgang Border of Rani Patara Panchayat
East-	Panchayat Barsauni
West-	Mauja Banbhag and Border of K Nagar Block.

This area will be called Purnea Municipal Corporation, Purnea.

2. This notification shall come to force at once.

By order of the Governor of Bihar,
PREMCHAND CHAUDHARY,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 224-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>